



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1931 (श०)
(सं० पटना 400) पटना, सोमवार, 3 अगस्त 2009

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

10 जुलाई 2009

सं० सं०क०निग०-30-21/2008-2144—जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक 81 मु०/गो०, दिनांक 04 जून 2009 द्वारा श्रीमती रीना कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, औराई, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को भेजा है। श्रीमती रीना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, औराई, मुजफ्फरपुर को निगरानी थाना कांड सं०-26/28, दिनांक 13 मई 2008 धारा-420/467/471/477(ए)/201/120(बी) भा० द० वि० एवं धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1) (डी) भा० नि० अधि० 1998 का प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। इनके विरुद्ध सेविका/सहायिका के चयन में गम्भीर अनियमितता बरतने संबंधी आरोप है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी पाये जाने एवं निगरानी थाना कांड सं० 26/28 दिनांक 13 मई 2008 धारा-420/467/471/477(ए)/201/120(बी) भा० द० वि० एवं धारा-13(2)-सह पठित धारा-13(1) (डी) भा० नि० अधि० 1998 का प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने के कारण श्रीमती रीना कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, औराई, मुजफ्फरपुर सम्प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गोपालगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) एवं (ग) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

(2) श्रीमती रीना कुमारी का निलंबन अवधि का मुख्यालय समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

(3) निलंबन अवधि में श्रीमती रीना कुमारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 में निहित प्रावधान के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(4) श्रीमती रीना कुमारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने संबंधी आदेश अलग से निर्गत होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

मृत्युंजय गुप्ता,

सरकार के उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 400-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>